

May 29, 2024

The Manager - Listing Department, National Stock Exchange of India

Limited,

Exchange Plaza, NSE Building,

Bandra Kurla Complex,

Bandra East, Mumbai- 400 051 Dalal Street,

The General Manager - Listing

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Mumbai- 400 001

Department,

BSE Limited

BSE Scrip Code: 524051

SYMBOL: POLYPLEX

Dear Sir/ Madam,

Reference: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Subject: Submission of cuttings of Notice published in Newspapers in respect of **Notice of Postal Ballot and Remote E- Voting Information.**

With reference to above we enclose herewith copies of Notice published in:

- 1) Business Standard All editions (English) on May 29, 2024; and
- 2) Uttar Ujala Nainital edition (Hindi) on May 29, 2024.

We are also arranging to upload aforesaid Notice on the website of the Company i.e. www.polyplex.com

Thanking You,

Yours faithfully, For Polyplex Corporation Limited

Ashok Kumar Gurnani Company Secretary

Encl: as above

Email: akgurnani@polyplex.com

Polyplex Corporation Limited

CIN: L25209UR1984PLC011596

the line pipe people

Registered office: Man House, 101, S. V. Road, Opp. Pawan Hans, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056

Website: www.mangroup.com, Email: investor.relations@maninds.org | CIN : - L99999MH1988PLC047408

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. I							
			STAND	CONSOLIDATED			
Sr. No	Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended
140		31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Total Income from Operations	77,809	3,08,010	55,497	2,09,249	3,14,218	2,23,134
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,						
	Exceptional and/or Extraordinary items#)	2,536	14,858	3,124	8,965	14,430	8,945
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax						
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2,536	14,858	3,124	8,965	14,430	8,945
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax						
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,725	10,974	2,691	6,727	10,514	6,704
5	Total Comprehensive Income for the period						
	(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)						
	and other Comprehensive Income (after Tax)	1,736	11,093	2,646	7,209	10,642	7,047
6	Paid up Equity Share Capital	3,237	3,237	3,005	3,005	3,237	3,005
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown						
	in the Audited Balance Sheet of the previous year		1,24,563		97,275	1,37,250	1,10,224
8	Earning Per Share (of Rs. 5/- each)						
	Basic (Rs.)	2.86	18.19	4.48	11.21	17.42	11.17
	Diluted (Rs.)	2.74	17.46	4.48	11.21	16.73	11.17

Notes

- The above is an extract of the detailed format of the Quarter and 12 months ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarte and 12 months ended Audited Financial Results as reviewed by the Audit Committee on May 28, 2024, and subsequently approved by the Board of Directors on same date are available on the Company's website i.e. http://www.mangroup.com and also available on the websites of Stock Exchanges websites viz BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange o India Limited (www.nseindia.com).
- The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant Rules issued there under and other accounting principles generally accepted in India. Accordingly, previous period's figures have been reclassified / regrouped/ restated, whenever necessary.
- The outstanding order book position as on date is approx. Rs. 2100/- crs to be executed in 6 to 8 months.
- The Holding Company has filed settlement application with Securities Exchange Board of India (SEBI) and in accordance with discussion with SEBI, the Holding Company has consolidated financial statements of Merino Shelters Private Limited (MSPL (wholly owned subsidiary) with financial statements of Holding Company. Consequently, the consolidated financial statements for the previous periods have been restated in accordance with the Indian Accounting Standard (IND AS) based on the financia statements of MSPL to give effect of the consolidation.

MAN Globally Committed

Place : Mumbai Date: May 28, 2024

R C Mansukhani Chairma

Date: 28.05.2024

Place: New Delhi

MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off.: 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001 website: www.mirza.co.in; e-mail: compliance@mirzaindia.com; Tel.: +91 512 2530775

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH 2024

	(Rs. in Lakh except EPS)													
			Standalone					Consolidated						
Sl.		Quarter	Quarter	Quarter	Year	Year	Quarter	Quarter	Quarter	Year	Year			
No.	Particulars	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended			
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023			
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)			
1	Total Income from Operations	14327.55	13860.92	15482.05	60985.48	63208.40	15295.30	14321.56	16537.90	63837.13	65803.80			
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional	135.16	632.19	305.35	1876.89	3410.75	140.97	585.74	486.14	1659.61	3595.18			
	and/or Extraordinary Items)													
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after	135.16	632.19	305.35	1876.89	3410.75	140.97	585.74	486.14	1659.61	3595.18			
	Exceptional and/or Extraordinary items)													
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after	88.66	486.69	229.52	1397.89	2618.30	118.91	439.54	321.79	1203.83	2644.07			
	Exceptional and/or Extraordinary items)													
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising	(115.28)	(191.22)	374.86	1418.41	2546.23	351.94	18.86	699.58	1247.52	2622.99			
	profit/(loss) for the period (after tax) and other													
	comprehensive income (after tax)]													
6	Equity Share Capital	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in				44260.57	42757.29				52497.10	50577.72			
	the Balance sheet of the previous year													
8	Earning Per Share (of Rs. 2/- each)													
I	(for continuing & discontinued operations)													
I	1. Basic:	0.06	0.35	0.17	1.01	1.89	0.09	0.32	0.23	0.87	1.91			
	2. Diluted:	0.06	0.35	0.17	1.01	1.89	0.09	0.32	0.23	0.87	1.91			

The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.mirza.co.in.
The above Consolidated Financial Results of Mirza International Limited (The Company), Wholly Owned Subsidiaries (WOS) i.e. TN S Hotels And Resorts Private Limited and RTS Fashion Ltd. are drawn in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 28, 2024. The auditors of the Company have carried out an audit and provided Audited Financial Results for the year ended 31st March 2024.

Figures for the period have been regrouped/rearranged whenever necessary to make them comparable

(Rs. In Lakhs)

Sd/-Tauseef Ahmad Mirza Whole-Time Director

(DIN: 00049037)

DIN - 00012033

APOLLO SINDOORI HOTELS

APOLLO SINDOORI HOTELS LIMITED

For Man Industries (India) Limited

CIN:L72300TN1998PLC041360

Hussain Mansion, Ground Floor, # 43/5, Greams Road, Thousand Lights, Chennai - 600 006 $Tel: 044\ 49\underline{04\ 5000, Email: info@apollosindoori.com, Website: www.apollosindoori.com}$

Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2024 Standalone

PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
Total income from operations (net)	7,385.34	7,329.10	7,136.61	28,621.18	25,849.08	13,529.86	13,548.03	13,443.68	51,940.67	36,700.34
Other non operating Income	268.87	117.76	134.73	662.34	994.26	388.27	215.51	650.85	1,051.50	920.39
Total income	7,654.21	7,446.86	7,271.34	29,283.52	26,843.34	13,918.13	13,763.54	14,094.53	52,992.17	37,620.73
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	450.16	243.95	240.84	1,420.14	1,656.45	447.07	504.02	700.32	1,914.67	1,600.49
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	450.16	243.95	240.84	1,420.14	1,656.45	447.07	504.02	700.32	1,914.67	2,492.70
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	272.43	192.72	105.59	1,003.19	1,192.66	172.22	372.22	204.03	1,106.86	1,691.50
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period after and other Comprehensive Income (after Tax)	481.72	192.72	136.48	1,212.48	1,223.54	405.02	384.27	363.12	1,546.28	1,804.49
Equity Share Capital (Face Value of Rs.5 per share)	130.02	130.02	130.02	130.02	130.02	130.02	130.02	130.02	130.02	130.02
Earnings Per Share (Rs.) (of Rs.5/- each) Basic & Diluted (not annualised) before Exceptional item	10.48	7.41	4.06	38.58	45.86	6.62	14.31	7.85	42.56	30.74
Earnings Per Share (Rs.) (of Rs.5/- each) Basic & Diluted (not annualised) after Exceptional item	10.48	7.41	4.06	38.58	45.86	6.62	14.31	7.85	42.56	65.05

Standalone

The drop in net profit is attributable to the combined effect of reduction in dividend income from subsidiary by Rs. 1.77 Crore and increase in interest cost by Rs. 1.45 crore attributable to the borrowings applied in acquisition of shares in the subsidiary

Consolidated:

Profit before exceptional items is increased from Rs.7.99 Cr (Rs.16.91 Cr - Rs.8.92 Cr) to Rs.11.07 Crs comparing to previous year. Due to Fair value gain of Rs.8.92 Crs on acquisition of Faber in FY 2022-23, EPS has decreased in FY 2023-24 comparing to previous FY 2022-23

The above results, duly reviewed by the Audit Committee, have been approved by the Board Of Directors in its meeting held on 28.05.2024 2. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Unaudited financial Results for the Quarter/Year ended 31st March 2024, filed with the Stock Exchange

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter ended 31st March 2024 is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and website of the Company (www.apollosindoori.com). t. The above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (INDAS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

For and on Behalf of the Board Place: Chennai G. Venkatraman Date: 28.05.2024

Place: Mumbai

(formerly known as National Peroxide Limited) Corporate Identity Number (CIN): L66309MH1954PLC009254 Registered Office: Neville House, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001. Email: secretarial@naperol.com | Website: www.naperolinvestments.com Phone: 022-66620000 **NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING**

NAPEROL INVESTMENTS LIMITED

Members of Naperol Investments Limited (formerly known as National Peroxide Limited) ("the Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108, Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") and 22 of the Companies (windgetheric and Administration) Rules, 2014 (the Rules), Secretaria standards of General Meetings (35-2 read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Regulation 44 o the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") (including any statutory modifications(s), amendment(s), clarification(s), re-enactment(s) or substitution(s) thereof for time being in force) and subject to other applicable laws, rules and regulations, that the resolution(s) as set out in this Notice is proposed for approval by the members of the Company (the "Members") through Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting"). Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act setting out the material facts concerning

the resolution(s) proposed to be passed has been sent electronically to the Members whose e-mail Id's are registered with the Company, Depositories as on Friday, May 24, 2024 i.e. the Cut-off Date. The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice or Tuesday, May 28, 2024.

Notice of Postal Ballot also be available on the Company's website at www.naperolinvestments.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on website of National Securities Depositories Limited (the "NSDL") i.e. www.evoting.nsdl.com. The Company has engaged the services of NSDL as the agency for providing the e-voting facility. The e- voting facility will be available during the following voting period: Commencement of e-voting

Wednesday, May 29, 2024, 9:00 AM (IST) Thursday, June 27, 2024, 5:00 PM (IST) Conclusion of e-voting E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time as the e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter Once the vote on a resolution(s) is cast by the Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

Manner of e-voting by the Members holding the shares in dematerialised mode, physical mode and Members who have not registered thei e-mail address has been provided in the Postal Ballot Notice. The manner in which the persons who have forgotten the User ID and Password can obtain / generate the same, has also been provided in the said Notice. Members whose names are recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-off Date i.e. May 24, 2024 shall

only be considered eligible for the purpose of e-voting. Voting rights of a Member/Beneficial Owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. A person who becomes a Member after the abovementioned Cut-off date should treat this notice for information purpose only The Members holding shares as on the Cut-off Date and have not received the Notice of Postal Ballot, may write to secretarial@naperol.com

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Nilesh Shah, (Membership No. FCS 4554) or failing him Mr. Mahesh Darji (Membership No. FCS 7175) or failing him Mrs. Hetal Shah (Membership No. FCS 8063) of Ms. Nilesh Shah & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutiniser for the purpose of the Postal Ballot process, including e-voting facility

a) Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the Company/Depositories are requested to update their e-mail addresses by sharing a duly filled and signed copy of Form ISR-1 as per the format prescribed by SEBI vide its circular dated November 3, 2021 with the Company at : mt.helpdesk@linkintime.co.in / secretarial@naperol.com along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the member, self-attested copy of the PAN card and self-attested copy of any documen (e.g. driving license, election identity card, passport) in support of the address of the member.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their e-mail addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to secretarial@naperol.com & rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

The resolution(s), if approved shall be deemed to have been passed on the last date of the e-voting i.e. Thursday, June 27, 2024, Based on the scrutiniser's report the results of Postal Ballot will be announced on or before Friday, June 28, 2024. The declared results along with the report of the Scrutiniser will be submitted to BSE Limited and shall be uploaded on the website of the Company at www.naperolinvestments.com and website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company

In case of any queries, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 700 and 022 - 2499 7000 or send a request to evoting.nsdl.com or cal World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, e-mail evoting@nsdl.com, Tel; 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. Members may write to the Company at secretarial@naperol.com.

For Manaral Investments Limiter

Place : Mumbai Date : May 28, 2024

Manner of registering / updating e-mail address:

Arpit Maheshwar ACS: 42396

POLYPLEX CORPORATION LIMITED (CIN: L25209UR1984PLC011596)

Regd. Office: Lohia Head Road, Khatima 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand Corporate Office: B-37, Sector-1, Noida -201301, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh Phone: 0120-2443716-19 Fax: 0120-2443723 & 24 Email: investorrelations@polyplex.com Website: www.polyplex.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to and in compliance with the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard-2 on General Meetings ('SS-2'), read with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') for holding general meetings / conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by MCA (collectively referred to as 'MCA Circulars') and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), to the Members of Polyplex Corporation Limited (hereinafter referred to as 'the Company') to transact the special business containing in Postal Ballot by passing requisite resolution(s), through remote e-voting process ('remote e-voting').

Notice of Postal Ballot along with procedures for e-voting has been sent electronically on May 28, 2024 to all those members whose email addresses are registered with the Company/ KFin Technologies Limited (Kfintech)/ Depository Participants (DPs) in accordance with above referred Circulars. A copy of the Notice of the Postal Ballot is also available at www.polyplex.com. If any member who has not received Notice of the Postal Ballot may write to Company at investorrelations@polyplex.com or to RTA at einward.ris@kfintech.com.

REMOTE E-VOTING

- In terms of Section 108 of the Act, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations, Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of agenda set out in the aforesaid Notice.
- KFin Technologies Limited (Kfintech) have been engaged to provide remote e-voting facility. Member whose names appear on the Register of Members / Beneficial Owners as on
- the "cut-off date" i.e. May 23, 2024 shall only be entitled to vote by remote e-voting. Members may visit https://evoting.kfintech.com to cast their votes during the period of remote e-voting. Remote e-voting shall commence on May 30, 2024 (09:00 a.m. IST) and will conclude on June 28, 2024 (05:00 p.m. IST) and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date.
- Members may also avail remote e-voting facilities by registering themselves with their respective Depositories viz. NSDL and CDSL at https://eservices.nsdl.com.and www.cdslindia.com, respectively.

The resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have beer passed on June 28, 2024 i.e. the last day of remote e-voting process. The result of remote e-voting will be announced on or before June 30, 2024. These results will also be displayed along with the Scrutinizer's Report on the Notice Board of the Company at its Registered Office and its Corporate Office. The results will also be posted on the website of the Company at www.polyplex.com, website of Kfintech at https://evoting.kfintech.com and will also be intimated to the National Stock of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. In case of any queries/grievances visit Help & FAQ's section available at Kfintech

website https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Raj Kumar Kale, Astt. Vice President, Kfintech or call at Toll free no. 1800-3094-001, e-mail: einward.ris@kfintech.com Members may also write to the Company Secretary at investorrelations@polyplex.com. For Polyplex Corporation Limited

Place: Noida Ashok Kumar Gurnani Date: May 28, 2024 Company Secretary





INDO COUNT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L72200PN1988PLC068972

Regd. Off.: Office No. 1, Plot No. 266, Village Alte, Kumbhoj Road, Taluka Hatkanangale, Dist. Kolhapur - 416 109. Tel. No.: (230) 2483105; Fax No.: (230) 2483275; e-mail: icilinvestors@indocount.com; Website: www.indocount.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹ in Crores except EPS)

				Standalone		Consolidated			
SI. No.		Particulars	Quarter	ended	Year ended	Quarter ended		Year ended	
	No.	Turitorialo	31-03-2024 (Unaudited)	31-03-2023 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)	31-03-2024 (Unaudited)	31-03-2023 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)	
	1	Total income from operations	1001.82	690.85	3378.55	1093.50	809.88	3600.79	
	2	Net Profit before tax	124.47	105.91	431.11	123.86	123.44	450.31	
	3	Net Profit after tax	92.39	73.79	320.30	91.94	94.72	337.93	
	4	Total Comprehensive Income	91.61	94.44	322.37	90.25	115.08	335.98	
	5	Paid up Equity Share Capital	39.61	39.61	39.61	39.61	39.61	39.61	
	6	Other Equity (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2049.45	
	7	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) Basic and Diluted (Not Annualised)	4.66	3.72	16.17	4.64	4.78	17.06	

- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the BSE Limited (www.bseindia.com), NSE of India Limited (www.nseindia.com) and on the Company's website at www.indocount.com.
- The above results of Indo Count Industries Limited ('the Holding Company') and its Subsidiaries (together referred to as 'Group') were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 27, 2024. The Statutory Auditors of the Company have conducted the audit of the above Consolidated Financial Results for the Year ended March 31, 2024.
- Subsequent to the year end, on 19 April 2024, Holding Company's wholly owned subsidiary, Indo Count Global Inc., USA, acquired the registered trademarks, trademark applications, associated intellectual property contracts and all domain names of the brand name 'Wamsutta' for a total consideration of \$10.25Mn (equivalent
- ₹ 8,549.01 lakhs) The figures for the corresponding previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary.

For Indo Count Industries Limited

Anil Kumar Jain Executive Chairman DIN: 00086106

Date: May 27, 2024

छात्र छात्राओं को इसमें अवश्य प्रतिभाग

करना चाहिए। शिविर को सम्पन्न कराने

हेतु कुछ दायित्व भी दिए गए जिसमें

कार्यालय प्रमुख कवि रोशन बलुनी एवं

डा. विश्वक्सेनदुदपुडी, डा.नवीन जसोला,

कलदीप मैंदोला. आचार्य रोशन गौड,

आचार्य इतेंद्र नैथानी, श्रीकान्तदुदपुडी,

सतीशदेवरानी, वर्गप्रणेता प्रधानाचार्य

कार्यालय नगर पालिका

परिषद, नैनीताल

पत्रांक−281/**X-**6 दिनांक: 28.05.2024

नोटिस

1-श्री असीम अहमद पुत्र स्व. श्री

मसूद अहमद निवासी वैल्ड्रोफ होटल

कम्पा मळीताल नैनीताल। 2- श्री

मोहम्मद साजिद, मो. राशिद, श्री

महमूद अहमद, मो0 शाहिद पुत्रगण

स्व. श्री रईश अहदम निवासी वैल्ड्रोफ

आपको नगर पालिका अधिनियम

होटल कम्पा. मल्लीताल नैनीताल।

करने का निश्चय किया गया है।

उतराधिकारी श्री असीम अहमद पुत्र

स्व0 श्री मसूद अहमद का नाम पालिका

प्रस्तावित है।

मनोजक्करेती आदि उपस्थित रहे।

नैथानी, आवासीय व्यवस्था

संस्कृत को जनभाषा बनाने कण्वनगरी में जुटेंगे राज्य के लोग

बनाने के लिए संस्कृत भारती 1981 संगठन बगैर सरकारी सहायता के जन से प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। सहभागिता एवं जन सहयोग से ही संस्कत भारती न्यास के नाम से चलता है इसमें कार्यकर्ताओं का त्याग

सम्मन

न्यायालय में श्रीमान सिविल जज (सी.डि.) महोदय. पिथौरागढ वादिनी- श्रीमती लीला देवी उर्फ श्रीमती नीला देवी उम्र बालिग पत्नी स्व. श्री जगत सिंह, निवासी ग्राम ओडमाथा पो.पट्टी नैनीसैनी तह. व जिला पिथौरागढ मो. 8937829415 पिन-262540

बनाम विपक्षीगण- 1. श्रीमती रेखा खड़ायत उम्र बालिग पुत्र स्व. श्री शेर राम, हाल मायके ग्राम तल्ली मिथीं, पो.मिर्थी, थाना, तह. डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़, 2. श्रीमती अनीता उम्र बालिग पत्नी स्व. श्री प्रकाश सिंह, निवासी हाल मायके मार्फत अपने श्री तेज सिंह ग्राम व पो. भटेडी, पट्टी दोली, थाना झुलाघाट, तह. व जिला पिथौरागढ़। 3. श्रीमान मुख्य शिक्षा, अधिकारी, महोदय, पिथौरागढ, पिन-262501, 4. श्रीमान खण्ड शिक्ष अधिकारी, महोदय, विकास खण्ड, सतगढ़, जिला पिथौरागढ़, पिन-262540, 5.श्रीमान प्राधानाचार्य, महोदय, राजकीय इण्टर कालेज. छड़नदेव तह. कनालीछीना, जिल पिथौरागढ़, पिन-262541, 6.राज्य सरकार जरिये कलक्टर, पिथौरागढ़, पिन 262501, 7-हर आम व खास उद्घोषणा वाद संख्या-03/2022

सम्मन बनाम-2-श्रीमती अनीता उम्र बालिग पत्नी स्व. श्री प्रकाश सिंह, निवासी हाल मायके मार्फत अपने श्री तेज सिह ग्राम व पो. भटेड़ी, पटटी दोली थाना झुलाघाट, तह. व जिल पिथौरागढ़।

नियत तिथि : 03.06.2024

हर आम खास चूंकि वादिनी श्रीमती लीला देवी उप श्रीमती नीला देवी उम्र बालिग पत्नी स्व. श्री जगत सिह निवासी ग्राम ओडमाथा, पो. पट्टी नैनीसैनी, तह. व जिला पिथौरागढ़, मो. नं. 8937829415, पिन-262540 द्वारा अपने पुत्र स्व. प्रकाश सिंह के समस्त देयकों व अन्य लाभों के अतिरिक्त उनके नाम जमा बीमा की धनराशि 1,00,000-00 रु. (एक लाख रु.) तथा जी.पी.एफ. की धनराशि 2,67,351-00 रु. (दो लाख सडसट हजार तीन सी इकावन रु.) कुल धनराशि 3,67 351.00 रु. (तीन लाख सहसठ हजार तीन सौ इकाचन रु.) प्राप्त किये जाने हेतु वादिनी द्वार यह वाद मेरे न्यायालय में प्रस्तुत किया है और यह याचिका इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है जिसमें 2-श्रीमती अनीता उम्र बालिग पत्नी स्व. श्री प्रकाश सिंह निवासी हाल मायके मार्फत अपने श्री तेज सिंह, ग्राम पो. मटेडी पट्टी दोली थाना झुलाघाट तह. व जिला पिथौरागढ़ को भी पक्षकार बनाया गया है। तथा बार-बार पैरवी लिये जाने पर भी विपक्षी संख्या-2 श्रीमती अनीता देवी को भेजी गयी सुचना/पैरवी तामील होकर नहीं आ रही है जिस कारण मामले की याची श्रीमती लीला देवी उर्फ श्रीमती लीला देवी उर्फ नीला देवी ने माननीय न्यायालय में अखबार प्रकाशन हेत् प्रार्थना की गयी है जिसे स्वीकारा गय है जिस कारण अस्वतार प्रकाशन वे जरिये विपक्षी संख्या-2 श्रीमती अनीता देवी को जरिये अखबा प्रकाशन सूचना भेजी जा रही है मामले में दिनांक 03.06.2024 की तिथि नियत है।

अतएव आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त तिथि को 10 बजे दिन स्वयं या जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपन पक्ष प्रस्तुत करें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सूचना जाने चक ना हो।

आज दिनाक 25.05.2024 को न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया

आज्ञा से : मुन्समि रीडर, सिविल जज न्यायालय में श्रीमान सिविल जज (जू.डि.) महोदय, पिथौरागढ़

उत्तर उजाला ब्यूरो पंजीकरण 1995 में दिल्ली में हुआ। **5 जून से कोटद्वार में शुरु** देहरादून। संस्कृत को जन भाषा यह विश्व का प्रथम न्यास है, यह नोगा गंगकतभारती का तर्म होगा संस्कतभारती का वर्ग

संभाषण के माध्यम से लोगों को संस्कृत बोलना सिखा रहे हैं। संस्कृत के इसी प्रचार प्रसार के ऋम में भारती के कार्य का आधार है। संस्कृत भारतीय उत्तरांचल के द्वारा उत्तराखंड में 1996 से संस्कृत भारती जुन माह के वर्ग का आयोजन कोटद्वार में किया जा रहा है। इस बार का कार्य प्रारंभ हुआ और संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा बनाने संस्कृत बोलने वाले उत्तराखण्ड के लोग कोटद्वार में जुटेंगे। सरस्वती विद्या मंदिर जानकीनगर कण्वनगरी सम्मेलन आदि कार्यक्रमों का कोटद्वार में दस दिवसीय आवसीय प्रबोधनवर्ग 5 जून से 13 जून 2024 तक प्रारम्भ हो रहा है।इसके लिए प्रत्येक वर्ष में संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृतभारती के कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एकदिवसीय संगोष्ठी प्रारम्भ हुई।जिसमें संस्कृत भारती के प्रांत किया जाता है जिसमें कई लोग संस्कृत बोलना सीखते हैं। संस्कृत संगठनमन्त्री प्रमुख नरेन्द्र पण्ड्या ने भारती के इस प्रयास से आज 22 देश बताया कि संस्कृत भारती के द्वारा में संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, समय समय पर शिविर का आयोजन जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोग किया जाता है। संस्कृत भारती के लिए पृथक पृथक आवासीय व्यवस्था संस्कृत में बातचीत कर सकते हैं। कई प्रान्त मंत्री गिरीश तिवारी ने कहा है।लगभग 100 शिक्षार्थी इसमें जगह कार्यकर्ता सरल संस्कृत संस्कृत शिविर में सम्पूर्ण भारत के प्रतिभाग करेंगे। सिद्धार्थ नैथानी ने

शिविर में ग्यारहवीं कक्षा से लेकर प्राईवेट स्कल के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं जन भाषा शिक्षक गृहणी,संस्कृत भाषा प्रेमी प्रतिभाग प्रान्तसहमंत्री डा.हरीश गुरुरानी ने कहा कि सभी भाषाओं की जननी कहीं जाने वाली संस्कृत भाषा आज विदेश में भी पढाई जा रही है किन्त अपने लोग ही संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। संस्कृत अगर लोग बोलने लगे तो घर में संस्कार अपने आप आ जायेंगे। जनपद संयोजक पंकज ध्यानी ने कहा कि कोटद्वार में पहली बार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्कत से ही भारत की पहचान है। पूर्व में संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन प्रमुख कुलदीप मैंदोला ने कहा कि शिविर में बालक एवं बालिकाओं के

विरोध के बीच चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

टीम ने भारी पुलिस बल के साथ दीपनगर को लोगों के भारी विरोध का सामना करना विरोध का सामना करना पड़ा कुछ शरारती गया। मौके पर विरोध के बावजद अतिक्रमण

किसी ने अतिऋमण हटा रही निगम की टीम हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर टीम भारी संख्या में पुलिस बल व जेसीबी के रहे और निगम की टीम अपना कार्य करती अतिक्रमण चिन्हित किये गये हैं।

देहरादन। मंगलवार को नगर निगम की साथ दीपनगर पहुंची जहां पर निगम की टीम रही। भारी पुलिस बल के सामने लोग ज्यादा विरोध नहीं कर सके। दोपहर तक निगम की पहुंचकर अतिक्रमण हटाओ अभियान पड़ा। लोगों ने निगम टीम का विरोध करते टीम ने चिन्हित अतिक्रमण को तोड़ दिया।गत हुए रास्ता रोक दिया। इस दौरान भीड में से दिवस नगर निगम की टीम द्वारा दल बल के साथ चुना भट्टा, शास्त्री नगर, चंदर रोड, लोगों ने निगम की टीम पर पथराव भी किया पर पत्थर फैंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने राजेश रावत कालोनी व बलबीर रोड से 35 अतिक्रमण हटाये गये थे। नगर निगम हटाये गए। मंगलवार सुबह नगर निगम की बितर कर दिया। इस दौरान लोग विरोध करते अधिकारियों के अनुसार करीब 89

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. भवाली. नैनीताल द्वारा निम्नलिखित कार्य की निवंदा दिनांक 03.06.2024 को आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 29.05.2024 से 02.06.2024 तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता अ.ख. लो.नि.वि. भवाली कार्यालय एवं निम्न कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा दिनांक 03.06.2024 के अपरान्ह 3.00 बजे तक इन्हीं कार्यालयों में डाले जा सकते हैं 1. अधीक्षण अभियन्ता, प्रा.ख., लो.नि.वि. नैनीताल, 2. अधिशासी अभियन्ता प्रा.ख., लो.नि.वि. अल्मोड़ा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि रु. रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	निविदा की वैधता (दिवस)	कार्य पूर्ण करने का समय (समय में)	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी
1.	दैवीय आपदा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विभिन्न मार्गो को वर्षात अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आने वाले मलुवे की सफाई/ यातायात खोलने हेतु किराये पर जे.सी.बी. मशीन लगाने का कार्य (राज्य मार्ग सं. 10 किमी. 35. मुख्यालय पदमपुरी)	12,000.00	500.00 + 18% GST	45	4	मार्ग कार्य में पंजीकृत डी एवं उच्चतर
2.	दैवीय आपदा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विभिन्न मार्गो को वर्षात अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आने वाले मलुवे की सफाई/ यातायात खोलने हेतु किराये पर जे.सी.बी. मशीन लगाने का कार्य (राज्य मार्ग सं. 64 किमी. 80 मुख्यालय खनस्यू)	12,000.00	500.00 +18% GST	45	4	मार्ग कार्य में पंजीकृत डी एवं उच्चतर
3.	दैवीय आपदा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों को वर्षात अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आने वाले मलुरे की सफाई/ यातायात खोलने हेतु किराये पर जे.सी.बी. मशीन लगाने का कार्य (राज्य मार्ग सं. 64 किमी. 96 मुख्यालय- पतलोट)	18,000.00	500.00 +18% GST	45	4	मार्ग कार्य में पंजीकृत डी एवं उच्चतर
4.	दैवीय आपदा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विभिन्न मागों को वर्षात अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आने वाले मानुवे की सफाई/ यातायात खोलने हेतु किराये पर जे.सी.बी. मशीन लगाने का कार्य (राज्य मार्ग सं. 104 किमी0 08. मुख्यालय भीडापानी)	12,000.00	500.00 +18% GST	45	4	मार्ग कार्य में पंजीकृत डी एवं उच्चतर
5.	दैवीय आपदा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों को वर्षात अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आने वाले मलुवे की सफाई/ यातायात खोलने हेतु किराये पर जे.सी.बी. मशीन लगाने का कार्य (किमी. 07 मुख्यालय ढोलीगाव)	12,000.00	500.00 + 18% GST	45	4	मार्ग कार्य में पंजीकृत डी एवं उच्चतर

निवदा दिनांक 03.06.2024 को अपग्रह 03.30 बजे. उपस्थित निविदाताओं के समक्ष कार्यालय अध्याशासी अधियन्ता अस्थाई खण्ड लो नि वि. भवाली (नैनीताल) में खोली जायेगी। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ देखी जा सकेंगी। किसी भी निविदा को स्वीकत/अस्वीकत करने का अधिकार सक्षम अधिकार के पास सरक्षित रहेगा।

. जे.सी.बी. मशीन में ए.आई.एस. मॉडल जी.पी.एफ. लगाना अनिवार्य होगा, जी.पी.एस. से संबंधित प्रपत्र भी निवदा के साथ जमा किये जाने अनिवार्य ह इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर

जनपद बागेश्वर के पंजीकृत गैस उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में पैटोलियम कम्पनियों के निर्देशानुसार सभी उपभोक्ताओं को अपने गैस कनेक्शन का ई.-के.वाई.सी. का कार्य किया जाना अनिवार्य है। गैस कनैक्शन ई.-के.वाई.सी. का कार्य गैस एजेन्सियों के माध्यम से अपने कार्यालय एवं गैस डिलीवरी वाहन के कर्मचारियों के माध्यम से मौके पर ही किया जा रहा है, जिस हेतु निम्नवत् दस्तावेज की आवश्यकता है-

01. गैस कनैक्शन धारक का आधार कार्ड

02. गैस बुक (परिवार के जिस सदस्य के नाम पर कनैक्शन है, उस व्यक्ति का मौके पर उपस्थित होना अनिवार्य है)

अत: उपरोक्त के सन्दर्भ में समस्त गैस कनैक्शन उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि आप उक्तानसार दस्तावेज सहित सम्बन्धित गैस एजेन्सी कार्यालय/गैस डिलीवरी स्थान/मौके पर स्वयं उपस्थित होकर अपने गैस कनैक्शन की ई.-के.वाई.सी. अनिवार्य रूप से शीघ्रातिशीघ्र करवाने का कष्ट करें ताकि आपको भविष्य में गैस बुकिंग के सम्बन्ध में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो सके। उपरोक्त के अतिरिक्त गैस उपभोक्ता घर बैठे इंण्डियन ऑयल वन एप के माध्यम से अपना ई.-

के.वाई.सी. कर सकते है।

मनोज कुमार बर्मन जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., नैनीताल 肇

Phone/ Fax-05942-235572/ 233549

E-Mail:eepdpwdntl@gmail.com

अति अल्पकालीन ई- निविदा सूचना (e-Tendering)

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., नैनीताल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु e-tender Single bidding के अनुसार ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना http://www.uktenders.gov.in पर दिनांक 31.05.2024 से उपलब्ध होगी।

क्रं सं	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रु.में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी	
1.	वर्ष 2024-25 में वार्षिक अनुरक्षण मद के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों में नवीनीकरण का कार्य अ-तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग में पी.सी. द्वारा नवीनीकरण का कार्य। (कुल लम्बाई 3.93 किमी. के किमी. 1 एवं 2 में) ब-रातीघाट बारगल मोटर मार्ग में कोल्ड मिक्स द्वारा नवीनीकरण का कार्य। (कुल लम्बाई 2.50 किमी. के किमी. 1, 2 एवं 3 में)	1,45,000.00	, ,	120 दिन	04 माह	मार्ग कार्य में पंजीकृत श्रेणी ''डी'' एवं उच्चतर	

हर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना को लगेंगी चौदह-चौदह टेबल

देहरादून। लोकसभा सामान्य निवार्चन 2024 की मतगणना निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनीताल

अध्यक्ष/सचिव झील प्राधीकरण तल्लीताल नैनीताल।

की धारा 147 की उपधारा (1) (2) व (3) के अधीन एतद नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद नैनीताल के भवन और भूमि सम्पत्ति मूल्याकन एवं कर निर्धारण सूची में क्षेत्र सं0 4 भवन सं0 138 जो कि पालिका अभिलेखानुसार श्री मोहम्मद साजिद, मो. राशिद, श्री महमूद अहमद, श्री मसूद अहमद, मो. शाहिद पत्रगण स्व. श्री रईश अहदम के नाम से दर्ज चली आ रही है के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन और परिवर्तन उक्त सम्पत्ति की प्रविष्टी मूल्यांकन

एवं कर निर्धारण सूची में की जाये तथा उक्त सम्पत्ति की प्रविष्ट मुल्यांकन इस सम्पत्ति में आपका नाम स्वामी के रुप में अंकित किया जाए तथा इस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन एवं वार्षिक भवन कर व सफाई कर नियमानुसार निर्धारित किया जाना उपरोक्त सम्पत्ति के एक सहभागीदार स्वामी श्री मसूद अहमद की मृत्यु हो जाने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र के साथ सलग्न मत्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एवं उत्तरजीवी प्रमाण पत्र के आधार पर उनके वर्तमान

अभिलेखों में संयुक्त रूप से स्वामी के रूप में दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। अत: उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति हो जो स्पष्ट तर्क संगत तथ्यों सहित अपनी आपत्ति लिखित रूप में स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा इस नोटिस की तामील के दिनांक से एक माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें अन्यथा निर्धारित अवधी समाप्त होने वाले दिनांक के अगले दिन या उसके बाद संशोधन और परिवर्तन या मल्य निर्धारण जैसी भी स्थिति हो का अधिप्रमाणिकरण कर दिया जायेगा।

POLYPLE》

पॉलीप्लेक्स कार्पोरेशन लिमिटेड

(CIN: L25209UR1984PLC011596)

पंजीकृत कार्यालयः लोहिया हेड रोड, खटीमा-262308, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

निगमित कार्यालयः बी-37, सेक्टर-1, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, नोएडा-201301,

फोन: 0120-2443716-19 फैक्स: 0120-2443723 & 24

ईमेलः investorrelations@polyplex.com वेबसाईटः www.polyplex.com

पोस्टल बैलट की सचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के

साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108, 110 के प्रावधानों और

अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हो, और अन्य प्रासंगिक परिपन्न, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनाँक 8 अप्रैल 2020, 17/2020

दिनाँक 13 अप्रैल 2020, 22/2020 दिनाँक 15 जून 2020, 33/2020 दिनाँक 28

सितम्बर 2020, 39 / 2020 दिनाँक 31 दिसम्बर 2020, 10 / 2021 दिनाँक 23 जन 2021

20 / 2021 दिनाँक 8 दिसम्बर 2021, 3 / 2022 दिनाँक 5 मई 2022, 11 / 2022 दिनाँक

("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता

दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी लिस्टिंग विनियम') के

विनियम 44, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 ('एसएस-2) के प्रावधानों और

समय-समय पर संशोधित अन्य लागू कानून और विनियम के अनुसरण और अनुपालन में

पॉलिप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) के सदस्यों का

केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से पोस्टल बैलट के

ई-वोटिंग की प्रक्रियाओं के साथ पोस्टल बैलेट की सूचना उन सभी सदस्यों को दिनाँक

28 मई. 2024 को इलेक्टॉनिक रूप से भेज दी गई है. जिनके ईमेल पते उपरोक्त के

अनुसार कंपनी / केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) / Depository Participant

(DP) के साथ पंजीकृत हैं। संदर्भित परिपत्र डाक मतपत्र की सूचना की एक प्रति

www.polyplex.com पर भी उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य जिसे पोस्टल बैलेट की सूचना

नहीं मिली है, तो वह कंपनी को investorrelations@polyplex.com पर या केफिनटेक को

अधिशासी अधिकारी

28 दिसंबर 2022 और 09 / 2023 दिनोंक 25 सितंबर 2023।

जरिए विशेष संकल्प के लिए अनुमोदन माँगा जा रहा है।

einward.ris@kfintech.com पर लिख सकता है।

कार्यों को सम्पादित करने हेतु मंगलवार को जिलाधिकारी/जिला सोनिका ने एनआइसी सभागार कचहरी परिसर में जनपद देहरादुन अंर्तगत 10 विधानसभाओं हेतु मतगणना कार्मिकों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया। मतगणना केन्द्र पर प्रत्येक विधानसभा में 14-14 टेबल स्थापित होंगे।मतगणना हेत 838 कार्मिक की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसमें ईवीएम मतगणना कार्मिक 550, पोस्टल बैलेट कार्मिक 192 तथा ईटीबीपीएस कार्मिक 96 तैनात रहेंगे।

पत्रांक−277/**X-**6 दिनांक: 27.05.2024

1. श्रीमती कमला गौड पत्नी श्री अशोक गौड निवासी ई 38 वैभरली कम्पा. मल्लीताल नैनीताल। 2.

आपकी नगर पालिका अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) (2) (3) अधीन एतद् नोटिस द्वारा सुचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद् नैनीताल के भवन और भूमि सम्पत्ति मूल्यांकन एवं कर निर्धारण सूची में क्षेत्र सं. 5 भवन सं0 28/6 फ्लैट नं. ई-38 वैभरली कम्पाउंड मल्लीताल नैनीताल स्थित सम्पत्ति जो कि पालिका अभिलेखों में सचिव झील विकास प्राधीकरण नैनीताल के नाम से दर्ज चली आ रही है के सम्बन्ध में निम्नलिखित संसोधन और परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है।

एवं कर निर्धारण सूची में की जाये तथा इस सम्पत्ति में आपका नाम स्वामी के रूप में अंकित किया जाए तथा इस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन भवन कर व सफाई कर नियमानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित पंजीकृत विऋय लेखपत्र कमश दिनाक 13-10-2010 की प्रमाणित प्रतियों वे आधार पर उक्त सम्पत्ति को स्वामित्व अधिकार का अंतरण हो जाने के कारण मुल्यांकन सूची में अंकित अध्यक्ष/सचिव झील प्राधीकरण तल्लीताल नैनीताल के स्थान पर श्रीमती कमला गौड पत्नी श्री अशोक गौड के नाम अंकित किया जाना प्रस्तावित है।

अत: उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति हो जो स्पष्ट तर्कसंगत तथ्यों सहित अपर्न आपत्ति लिखित रुप में स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा इस नोटिस की तामील के दिनांक से एक माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें अन्यथ निर्धारित अवधी समाप्त होने वाले दिनांक को अगले दिन या उसके बाद संशोधन और परिवर्तन या मल्य निर्धारण जैसी भी स्थिति हो का अधिप्रमाणिकरण कर दिया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी

उनकी छवि एक परिपक्व और सुझबुझ प्रवास कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों मे वाले राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर कर प्रवासी उत्तराखंडियों के अतिरिक्त सामने आयी है। पत्रकारों से लाखों की संख्या में जनमानस ने अनौपचारिक बातचीत में चौहान ने कहा कि जनहित में लिए उनके का संकल्प लिया। उनकी सभाओं में ऐतिहासिक और साहसिक निर्णयों ने राष्ट्रवादी निर्णयों की गुंज और रोड शो देश भर में देवभूमिवासियों का मान बढाया है।उनकी सभाओं और रोड शो में उमड़ी भीड़ जनमानस में उनकी स्वीकार्यता को साबित करती है। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदान के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी विभिन्न राज्यों में प्रचार करने वाले नेताओं में

लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुए धामी

देहराद्न। भाजपा के प्रदेश ने उन्हें लोकसभा चुनावों में विभिन्न

मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने राज्यों में स्टार प्रचारक बनाया है।

कहा कि केंद्रीय नेतत्व के विश्वास पर

खरे उतरे सीएम पष्कर धामी ने राज्य

सहित अन्य प्रदेशों में जिस तरह

अपनी उपयोगिता साबित की उससे

अपने अपने क्षेत्रों में कमल खिलाने में उमड़ती भीड़ ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। उत्तराखंड में धामी सरकार के निर्णय और कार्यशैली भाजपा के को धरातल पर उतारने वाले हैं। यही वजह है कि सीएम धामी के प्रति जनता ही नहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं का भरोसा भी बहुत बढा है।केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों, जनता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से उन्होंने आज देशवासियों के दिल में जगह बना ली है।पीएम मोदी और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में अपनी सरकार के कामों और जनता की स्वीकार्यता के चलते इन चुनावों में सीएम धामी राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुए हैं।

चौहान ने कहा कि सभी राज्यों के

कार्यकर्ताओं की डिमांड को देखते हुए

दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान,पंजाब,

हरियाणा समेत दर्जनों राज्यों में उनका

सूचना

शामिल हैं। अपनी सरकार में यूसीसी,

धर्मांतरण, नकल, मातृ शक्ति

आरक्षण, दंगारोधी आदि तमाम

विषयों पर इतिहास बनाने वाले

साहसिक कदमों से उनकी

लोकप्रियता देश भर में बड़ी है। उनके

इन्ही दूरदर्शी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाले

निर्णयों को देखकर पार्टी नेतृत्व का

विश्वास भी धामी पर लगातार बढ़ रहा

सूच्य है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा संचालित हाईस्कुल परीक्षा वर्ष 2010, अनऋमांक ०००१७१३ का अकपत्र व प्रमाण पत्र वास्तव में कहीं खो गया है। रीतिका पुत्री राम चन्द्र, निवासी- ज्वालापुर(हरिद्वार)।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनीताल ात्रांक−279/**X-**6 दिनांक: 26.05.2024 नोटिस

श्री दिनेश कुन्दा पुत्र श्री शान्ति स्वरूप कुन्द्रा निवासी 42 धनौरी पट्टी प्रतापपुर काशीपुर, उधमसिंहनगर 2. श्रीमती हिमांशु नौरियाल पत्नी श्री हरेन्द्रसिंह नौरियाल निवासी हाउस नम्बर सी 36 गली नम्बर 17 हिंडन बिहार।

आपको नगर पालिका अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) (2) (3) अधीन एतद् नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद नैनीताल के भवन और भूमि सम्पत्ति मूल्यांकन एवं कर निर्धारण सूची में क्षेत्र सं0 09 भवन सं0 43/4 डलहौजी विला कम्पाउण्ड मल्लीताल, नैनीताल में स्थित एक किता भखण्ड रकवा 1053,50 वर्गफिट अर्थात 97.90 वर्गमीटर तथा इसी भूमि पर निर्मित एक किता टीन शेड जिसका निर्मित क्षेत्रफल 136 वर्गफिट अर्थात 12.63 वर्गमीटर है में स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध मे निम्नलिखित संसोधन और परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है।

उक्त सम्पत्ति की प्रविष्ट मूल्यांकन एवं कर निर्धारण सुची में की जाये तथा इस सम्पत्ति में आपका नाम स्वामी के रूप में अंकित किया जाए तथा इस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन भवन कर व सफाई कर नियमानुसार निर्धारित किया जाना पस्तावित है।

पंजीकत विक्रय लेखपत्र दिनांक 01-03-2024 की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व अधिकार का अन्तरण हो जाने के कारण मूल्यांकन सूची में अंकित श्रीमती हिमांश नौरियाल पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह नौरियाल के स्थान पर अंतरित श्री दिनेश कन्द्रा पत्र श्री शान्ति स्वरूप कन्दा का नाम अंकित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन और परिवर्तन या मृल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति हो जो स्पष्ट तर्कसंगत तथ्यों सहित अपनी आपत्ति लिखित रूप में स्वंय या अपने अभिकर्ता द्वारा इस नोटिस की तामील के दिनांक से एक माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें अन्यथा निर्धारित अवधी समाप्त होने वाले दिनांक को अगले दिन या उसके बाद संशोधन और परिवर्तन या मृल्य निर्धारण जैसी भी स्थिति हो का अधिप्रमाणिकरण कर दिया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनीताल ात्रांक−265/**X-**6 दिनांक: 25.05.2024 नोटिस

1 श्री मनोज कमार टांक पत्र श्री किशन लाल टांक,निवासी टांकी, टी वी टावर मुळीताल नैनीताल। 2 श्रीमती शीला साह, श्री शैलेन्द्र साह, श्री नागेन्द्र साह उर्फ निक्की पत्नी पुत्रगण श्री बी.सी. साह निवासी वाह्र व्यू ईस्ट तल्लीताल नैनीताल। 3. श्रीमती जीवा साह पत्नी श्री किशन दास साह निवासी वाल्ल व्यू ईस्ट तल्लीताल नैनीताल। 4 श्रीमती मीना शाह, श्री भानू साह, पत्नी/पुत्र स्व. श्री रमेश लाल साह म. नं. 137-3 पिछाडी बाजार तल्लीताल नैनीताल।

आपको नगर पालिका अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) (2) व (3) अधीन एतद् नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद, नैनीताल के भवन और भूमि सम्पत्ति मुल्यांकन एवं कर निर्धारण सुची में क्षेत्र सं0 3 फेयर लाईट हौल टाकी बैंड मुझीवाल नैनीताल स्थित एक मंजिला सेमी पक्का आ0 हाउस जिसका निर्मित शे0 1687.5 वर्गफी0 यानि 156.83 वर्गमी० एवं खाली भूमि क्षे0 600 वर्गफी0 यानि 55.76 वर्गमी0 कुल क्षे0 2287.5 वर्गफीट यानि 212.50 वर्गमीटर सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित संसोधन और परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है।

उक्त सम्पत्ति की प्रविष्ट मूल्यांकन एवं कर निर्धारण सूची में की जाये तथा इस सम्पत्ति में आपका नाम स्वामी के रूप में अंकित किया जाए तथा इस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन भवन कर व सफाई कर नियमानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

पंजीकृत विऋय लेखपत्र दिनांक 30-03-2017 की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व अधिकार का अन्तरण हो जाने के कारण मूल्यांकन सूची में अंकित श्रीमती शीला साह, श्री शैलेन्द्र साह, श्री नागेन्द्र साह उर्फ निक्की पत्नी/पुत्रगण श्री बी.सी. साह एवं श्रीमती जीवा साह श्री रमेश लाल साह के स्थान पर मनोज कुमार टांक पु. श्री किशन लाल टांक का नाम अंकित किया जाना प्रस्तावित है। अत: उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति हो जो स्पष्ट तर्क संगत तथ्यों सहित अपनी आपत्ति लिखित रुप में स्वंय या अपने अभिकर्ता द्वारा इस नोटिस की तामील के दिनांक से एक माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें अन्यथा निर्धारित अवधी समाप्त होने वाले दिनांक के अगले दिन या उसक बाद संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण जैसी भी स्थिति हो का अधिप्रमाणिकरण कर दिया जायेगा। अधिशासी अधिकारी

🏵 🕏 🤀 🍩 🥮 राशिफल बुधवार 29 मई, 2024

–आज का दिन अनुकूल है। महत्वपूर्ण घरेलू काम पूरे होंगे। अपन

व्यवहार सकारात्मक रखें। भविष्य की योजनाओं पर विचार करें। - आज का दिन उत्तम रहने वाला है। व्यापार में फायदा होगा निवेश से जुड़े कुछ बेहतर मौके मिल सकते हैं। नए विचार आयेंगे - दिन खुशियों भरा रहने वाला है। मन नया काम करने में लगेगा

बिजनेस में वृद्धि के योग हैं। दूसरों की हर संभव मदद करेंगे · दिन ठीक–ठाक रहेगा। सोच सकारात्मक रखें। पुराने कामकाज

निपटाने में सफल रहेंगे। कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। - दिन अच्छा रहेगा। जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वह प्रभावित होगा परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से ठीक रहेगा।

– दिन उमंग से भरा रहेगा। अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बच्चों की कामयाबी पर गर्व महसूस करेंगे

– आज दिन अति उत्तम है। मन में नए विचार आएंगे। योजना में

कोई बदलाव हो सकता है। बिजनेस में कुछ नया करेंगे। – आज प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े-बुजुगं की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी। धन-लाभ का योग बन रहा है

– दिन आपके लिए शानदार रहेगा। अध्यात्मक की तरफ रुझान रहेगा। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मान-सम्मान बढेगा।

– आज का दिन बेहतर रहने वाला है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापार में फायदे के आसार नजर आ रहे हैं - दिन उत्तम रहेगा। आज सामाजिक कार्यों में योगदान देंगे

उम्मीद के अनुसार कामयाबी हासिल होगी। दूर की यात्रा करने से बचें। – दिन आपके लिए उत्साहपूर्वक रहेगा। कोई शुभ कार्य करेंगे। दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। पूरा दिन मौज-मस्ती से भरा रहेगा।

संस्थापकः स्व.जी.एस.भण्डारी

जी.एस.भण्डारी एण्ड को. के लिए प्रकाशक मुद्रक डा.उषा किरन भण्डारी द्वारा उत्तर उजाला प्रेस, उजाला नगर बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित व भण्डारी भवन, मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।

मुख्य सम्पादक : डा. उषा किरन भण्डारी

फोन : हल्द्वानी 05946-252975, पंजी.सं. आर.एन.32942/77 E-mail: uttarujala7@gmail.com website: www.uttarujala.com

रिमोट ई-वोटिंग कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित अधिनियम की घारा 108 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को अपना कार्य करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। उपरोक्त सूचना में निर्धारित एजेंडे के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान

करने के लिए नियुक्त किया गया है। जिस सदस्य का नाम "cut&off date" यानी दिनाँक 23 मई, 2024 को

सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वह केवल रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने का हकदार होगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान सदस्य अपना वोट डालने के लिए

https://evoting.kfintech.com पर जा सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग दिनाँक 30 मई, 2024 (09:00 पूर्वाह IST) को शुरू होगी और 28 जून, 2024 (05:00 अपराह IST) के समाप्त होगी और उक्त तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी में खुद को पंजीकृत करके रिमोट ई-वोटिंग सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। NSDL और CDSL क्रमश https://eservices.nsdl.com और www.cdslindia.com पर ।

यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाता है, तो उसे दिनाँक 28 जून, 2024 यानी रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के अंतिम दिन पारित माना जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग का परिणाम दिनाँक 30 जून, 2024 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। ये परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर Scrutinizer's की रिपोर्ट के साथ भी प्रदर्शित किए जाएंगे। परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.polyplex.com, Kfintech की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी पोस्ट किए जाएंगे और National Stock Exchange of India Limited और BSE Limited को भी सचित किया जाएगा।

किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में Kfintech वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध सहायता और FAQ अनुभाग पर जाएँ या Kfintech के सहायक उपाध्यक्ष श्री राज कुमार काले से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। 1800-3094-001, ई-मेलः einward.ris@kfintech.com। सदस्य कंपनी सचिव को investorrelations@polyplex.com पर लिख सकते हैं।

स्थान : नोएडा

दिनांक : मई 28, 2024

कते पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (हस्ता. / अशोक कुमार गुरनानी

कम्पनी सचिव